

04.11.2020

To,

**The Manager
The BSE Limited
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street
Mumbai-400001**

Subject: Intimation of Publication of Notice of Board Meeting
Stock Code: 517360

Dear Sir

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of newspaper cuttings with respect to the Notice of Board Meeting scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 published in Financial Express {English} and Haribhoomi (Hindi) newspapers on 04th November, 2020.

Please find the newspaper clipping for your reference.

Kindly take the above documents on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully

For SBEC Systems (India) Limited


Priyanka Negi
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED
CIN : L65993DL1992PLC04483
Regd. Office: K H-810, 2nd Floor, Mahipal Pur Extension (Near Maruti Work Shop), New Delhi-110037
Website: www.porschecapital.com
Email: porsche_capital@yahoo.in
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th November, 2020 to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 among other things. A copy of the said Notice and the Financial Results shall also be available at the Company's website at www.porschecapital.com and on Stock Exchange Website at www.mseil.in

For **PORSCHE CAPITAL MARKET LIMITED**
Sd/-
Date : 03.11.2020
RAJAN TIRKEY
DIRECTOR
GLOBUS POWER GENERATION LIMITED
Regd. Office: Shyam House, Plot No.3, Amrapali Circle, Vashtai Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302021
Corporate Office: A-60, Naraina Industrial Area, Phase 1, New Delhi-110028
CIN No. L43000RJ1985PLC047105
Email: info@globuscdl@gmail.com
Website: www.gpgpl.in
NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 11:00 AM through virtual video conferencing, inter alia, to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

For **Globus Power Generation Limited**
Sd/-
Date: 03.11.2020
(Company Secretary)

Jindal Cotex Limited
Registered Office: Village Mandiala Kalan, P.O. Bija, Tehsil Khanna, District Ludhiana-141412
Ph: 01628-289842, Email: cs@siggroup.in
CIN: L17115PB1998PLC021084
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 12th day of November, 2020 at 4:00 P.M. at the Registered Office of the company at Village Mandiala Kalan, P.O. Bija, Tehsil Khanna, District Ludhiana-141412, to inter alia consider and approve un-audited financial results for the quarter ended on 30th September, 2020 and any other matter with permission of the Chair.

For **Jindal Cotex Limited**
Sd/-
Date : 03.11.2020 (Sandeep Jindal)
Place : Ludhiana Managing Director

SBEC SYSTEMS (INDIA) LIMITED
CIN: L74210DL1987PLC029979
Regd. Office: 1400 Modi Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019.
Email : sbecsystems@rediffmail.com
Website : www.sbecsystems.com
Tel No. : 011-4250487/8/4842
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Wednesday, 11th November, 2020 inter alia to consider and approve the un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. The information contained in this notice is also available on the website of the Company i.e. (www.sbecsystems.com) and the website of the Stock Exchange i.e. (www.bseindia.com).

By Order of the Board
For **SBEC Systems (India) Limited**
Sd/-
Priyanka Negi
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer
Date: 03.11.2020

ABHINAV LEASING & FINANCE LIMITED
(CIN: L65100DL1984PLC018748)
Regd. Office: S-524, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi 110092
E-Mail: abhinavleasefinltd@gmail.com
Website: www.abhinavleasefinltd.in
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday 10th November, 2020 inter alia, to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 along with other business if any.

The information contained in this notice available on the Company's website at www.abhinavleasefinltd.in and the website of Stock Exchange as www.bseindia.com.
For **Abhinav Leasing & Finance Limited**
Sd/-
Date: 03.11.2020 Atul Kumar Agarwal
Place: Delhi (Director)

JINDAL CAPITAL LTD.
Regd Office: 79-A Kania Nagar Delhi-110007
CIN: L74899DL1994PLC059720
Website: www.jindalcapital.in
Email: investor@jindalcapital.in
Phone: 011 23841536
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) of SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that meeting of Board of Directors will be held on Wednesday, 11th November, 2020 to consider and take on record Unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

It is further informed that pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and pursuant to the internal code for prevention of Insider Trading of the Company, the Trading Window for dealing in equity shares of the Company by its Directors & designated employees shall remain closed from November 2, 2020 until the closing of business hours on November 13, 2020 on account of declaration of the aforesaid Un-audited Financial Results of the company.

For **Jindal Capital Ltd.**
Sd/-
Pawan Kumar Jindal
Managing Director
DIN: 00524690
Place: Delhi
Date: 02.11.2020

RIBA TEXTILES LIMITED
DD-14, Nehru Enclave, Opp. Kalkaji Post Office, New Delhi - 110019
CIN : L16101DL1989PLC034528
Tel. : +91-26213012 / 26236386
Fax. : +91-26465227
NOTICE
Notice is hereby given, Pursuant to provision of regulations 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) regulations 2015, that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 12th November, 2020 at 04.30 p.m. at Kishore House, Assandi Road, Panipat-132103, Haryana, inter alia, to consider, approve and take on record the Un-audited Financial results along with Limited Review Report of the Statutory Auditor, for the Quarter and half year ended on September 30th 2020.

The said notice is also available on the Company's Website www.ribatextiles.com and the website of Stock Exchange- BSE Ltd., www.bseindia.com.

For **Riba Textiles Limited**
Sd/-
(Neha Dubey)
Company Secretary
M. No.: A46655
Place : New Delhi
Date : 03.11.2020

Bella Casa Fashion & Retail Limited
Registered Office: E-102, EIP, Gurgaon Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan)
Website-www.bellacasa.in, CIN- L17124RJ1996PLC011522,
E-mail-cs@bellacasa.in, Tel No. 0141-2771844
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11th day of November, 2020 at 11:30 A.M. at the registered office of the Company at E-102, 103, EIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022 (Rajasthan) to inter alia consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2020. This intimation is also available on the website of the Company at www.bellacasa.in and on the website of the stock exchange where the shares of the company are listed at www.bseindia.com

For **Bella Casa Fashion & Retail Limited**
Sd/-
Sonika Gupta
Company Secretary
Date: November 03, 2020
Place: Jaipur

Akashdeep Metal Industries Limited
CIN: L28998DL1983PLC017150
Registered Office: 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn., East Delhi-110092 Tel: +91-11-43011038,
Email: info.akashdeep14@gmail.com Website: www.akashdeepmetal.in
NOTICE
Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th day of November, 2020 at 14, Dayanand Vihar, Backside, Ground Floor, Vikas Marg Extn., Delhi-110092, inter alia to consider and approve, the un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and Half year ended 30th September, 2020. (This Notice is also available on the website of the Stock Exchange, where the Shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com and on Company's website www.akashdeepmetal.in)

For **Akashdeep Metal Industries Limited**
(Sd/-)
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN : 00006056
Place : Delhi
Date : 03/11/2020

Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Regd. Office : Plot No. 16-18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan-173213 (HP)
Ph. + 91-11-26027174, Fax: +91-011-26026776,
website: www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com,
CIN: L27101HP1984PLC005862
NOTICE
NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 11th day of November, 2020, inter alia to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.shivalikbimetals.com and may also be accessed on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.
In pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window of the Company remains closed from 01st October, 2020 to 13th November, 2020 (both days inclusive).

For **Shivalik Bimetal Controls Limited**
Sd/-
Aarti Jassal
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 03/11/2020

JAYPEE INFRA TECH
CIN: L45203UP2007PLC033119
Regd. Office: Sector -128, Noida-201304, U.P.
Tel. + 91(120) 4609000, Fax: +91(120)4963122
Website: www.jaypeeinfra.com Email: jpinfra@jaypeeinfra.com
NOTICE
In terms of Regulation 29 and 47 of Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2020 will be considered and disseminated on Wednesday, the 11th November, 2020. Further details may be accessed on the Company's Website i.e. www.jaypeeinfra.com and may also be accessed on the Stock Exchange's Websites at www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **JAYPEE INFRA TECH LIMITED**
(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)
Anuj Jain
Interim Resolution Professional
Date : 3rd November, 2020
IP Registration no. IBB/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306
Place : Noida

ROADWAYS INDIA LIMITED
Regd. Off: 11/55, First Floor, Pusa Road, New Delhi-110005
Tel No : 011-47192065, Fax: 011-25615466
Email: info@roadwaysindia.com
CIN: L63800DL1987PLC0319212
Website : www.roadwaysindia.com
NOTICE
Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on Friday, November 13, 2020 at 3:30 P.M. to inter alia consider and approve the Un-audited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended September 30, 2020.

This information is also available on the Company's website: www.roadwaysindia.com and on Stock Exchange's website: www.cse-india.com and www.mseil.in

By Order of Board of Directors
For **Roadways India Limited**
Sd/-
Date: November 03, 2020 Himanshu Gustin
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
CIN: L51503DL1986PLC024329
Regd. Office : 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001
Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015
E-mail: fr.info@gmail.com, Website: www.firt.co.in
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 04.30 PM inter alia to consider and approve the standalone unaudited financial results of the Company for the Quarter/ Half year ended 30th September, 2020. The information is also hosted on the Company's at www.firt.co.in and may also be accessed on the websites of the stock exchanges at www.mseil.in.

For **Fortune Industrial Resources Limited**
Sd/-
Bharti
Company Secretary
ACS No. 34492
Place : Delhi
Date : 03.11.2020

ICICI Bank
Regd. Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara - 390 007
Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Regional Office: ICICI Bank Limited, NBCC Place, Pragati Vihar, New Delhi - 110 003

PUBLIC NOTICE - TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

Sale of Immovable Asset under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) and rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002
Whereas, the undersigned being an Authorized Officer of ICICI Bank Limited ("ICICI Bank") under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"), issued a statutory demand notice on December 04, 2018 under section 13(2) of the said Act, upon Mr. Ram Niwas Sharma ("Guarantor and Mortgagee of Global Housing Limited"), Mr. Naresh Basia, Mr. Amit Basia, Mr. Anil Basia, Mr. Rajiv Aggarwal, Mr. Vinod Sharma and Mr. Vivek Sharma (Guarantors of Global Housing Limited), to repay INR 411.9 million outstanding as on November 30, 2018 along with further interest, default/penal interest, cost and other charges thereon till the date of payment in accordance with their respective obligations stipulated in the underlying transaction documents, within 60 days from the date of receipt of the said demand notice. Hereinafter, all the aforesaid Guarantors and the Mortgagee are collectively referred to as "Noticee(s)". That, the Noticee(s) failed and neglected to comply with the said demand.

And whereas, in exercise of powers conferred under section 13(4) of the SARFAESI Act read with the Rules, the Authorized Officer has taken possession of below mentioned property ("Secured Asset") on Dec 20, 2019.

Public at large is hereby informed that ICICI Bank is inviting offers for the sale of Secured Assets (as described in the Schedule below) under the provisions of SARFAESI Act and the Rules thereunder on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis" and "Without any recourse basis" as per details given below.

Description of the Secured Asset	Reserve Price (In ₹)	Earnest Money Deposit ("EMD") (In ₹)	Bid Increment Value (In ₹)	Date of Property Inspection and time	Last date of submission of EMD	Date and Time of e-Auction
Residential Flat Situated at B-3/ 324, Sunrise Apartments Sector 13, Rohini, Delhi-110 085	1,77,75,450.00	17,77,545.00	1,00,000.00	November 19, 2020 (11:00 AM to 01:00 PM) with prior intimation	November 23, 2020 up to 4:00 PM	November 25, 2020 (11:00 AM to 12:00 Noon)

TERMS & CONDITIONS

(1) The online auction will be conducted through M/s e-Procurement Technologies Limited (Auction tiger) on the website of auction agency i.e. https://icicibank.auctiontiger.net and shall be subject to terms & condition contained in the Tender cum Auction Document which is available on https://icicibank.auctiontiger.net.
(2) For any clarifications with regard to inspection, terms and conditions of the auction or submission of tenders, kindly contact Mr. Karan Kakkar, Authorized Officer of ICICI Bank Limited -91-7042792970 or write to karankakkar@icicibank.com.
(3) The Noticee(s) in particular and the public in general are hereby cautioned and restrained not to deal with the Secured Asset, as detailed above, in any manner in terms of section 13(13) of the SARFAESI Act and any dealing with the Secured Asset will be subject to the charge of ICICI Bank over the Secured Asset for the outstanding amounts together with interest, compound interest, liquidated damages or other charges thereon at the contractual rates until payment/realization owing by the Noticee(s) to ICICI Bank.
(4) The Mortgagee and Noticee(s) are given last chance to repay the total outstanding dues of ₹ 49,36,42,881.15 (Rupees Forty-Nine Crore Thirty-Six Lakhs Forty-Two Thousand Eight Hundred Eighty-One and Fifteen Paise Only) outstanding as on October 31, 2020 along with further interest and other charges thereon at the contractual interest rates. The said dues are required to be paid by the Noticee(s) on or before November 24, 2020 to redeem the Secured Asset, failing which, the Secured Asset will be sold as per schedule, as mentioned above.
(5) In case there is any discrepancy between the publication of sale notice in English & vernacular newspaper, then in such case the English newspaper will supersede the vernacular newspaper and it shall be considered as the final copy, thus removing the ambiguity.

Statutory 15 days Sale notice under Rule 8(6) of the Rules

The Noticee(s) are once again hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-auction, failing which the secured asset will be auctioned/sold and balance dues, if any will be recovered with interest and cost. If auction fails due to any reasons whatsoever, ICICI Bank would be at liberty to sell the above Secured Asset through Private Treaty or any other means without any further notice to the Noticee(s) and in accordance with the provisions mandated under SARFAESI Act and the Rules thereunder.
Date: November 04, 2020
Place: New Delhi
Sd/-
Authorised Officer
For ICICI Bank Limited

K M SUGAR MILLS LIMITED
Regd. Office: 11-Moti Bhawan, Collector Ganj, Kanpur-208001(U.P.)
Corp. Office: 76-Eldeco Green, Gomti Nagar, Lucknow-226010(U.P.)
CIN No. : L15421UP1971PLC003492, Website : www.kmsugar.com
E-mail: kmsugar@gmail.com Phone : 0512-2310762, 0522-4079561
NOTICE OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29, 33 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 11.00 hrs (A.M) through electronic mode (the link for the same is provided herein below) to consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and the half year ended 30th September, 2020 inter-alia any other matter.

Further, pursuant to clause 4 of schedule B of code of conduct SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 Trading Window has been closed for the Directors, Promoters, Officers and designated employees of the Company from 01st October, 2020 till 48 hours after the declaration of the financial Results of the company for the quarter and the half year ended 30th September 2020 i.e. 12th November, 2020 for dealing in the securities of the Company.
The said notice may be accessed on the Company's website at www.kmsugar.com and also on Stock Exchanges Website at www.bse.india.com and www.nseindia.com including Un-audited quarter and half year ended financial results after approval by the Board.
Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/86320575473

By Order of the Board
For **K M Sugar Mills Ltd.**
Sd/-
Pooja Dua
Company Secretary
Place: Lucknow
Date: 03 November 2020

ADVIK CAPITAL LIMITED
CIN: L65100DL1985PLC022505
Regd. Office: Plot No. 84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi - 110081
Email: cs@advikgroup.com, info@advikgroup.com, Website: www.advikgroup.com
NOTICE
Pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the 3rd meeting of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2020-21 is scheduled to be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company at Plot No.84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi - 110081 to consider and approve, amongst other items of Agenda, the Un-audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company including the Limited Review Report of Auditor for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020.

Further, it is to be noted that in accordance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and the Company's code of conduct for Prevention of Insider Trading, and in reference to the BSE circulars No. LIST/COMP/10/2019-20 dated April 02, 2019 issued by BSE Limited in compliance with amended SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has already been closed from 1st Day of October, 2020 till Declaration of the Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020 for Directors/Officers/Employees of the Company along with Designated Persons and their immediate relatives. The trading window shall re-open from 13th day of November, 2020.
This information is also available on the website of the Company i.e. www.advikgroup.com and on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For **ADVIK CAPITAL LIMITED**
Sd/-
Virender Kumar Agarwal
Managing Director cum Compliance Officer
DIN: 00531255
Place : Delhi
Date : 03.11.2020

INTEGRATED TECHNOLOGIES LIMITED
Regd. Off.: C-24, Defence Colony, New Delhi-110024, India
Tel: +91-11-41552579,
Email: info@integratedtech.in
Website: www.integratedtech.in
CIN: L31990DL1995PLC277176
Intimation of Board Meeting & Closure of Trading Window
Pursuant to the Regulation 29 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the meeting of the Board of Directors of Integrated Technologies Limited will be held on 11th November, 2020 at 2:00 P.M. at the registered office of the company at C-24, Defence Colony, New Delhi-110024 to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and matters connected therewith.

Further, pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation 2015 and SEBI Inter Ref. No. LIST/COMP/10/2019-20 dated April 02, 19 the Trading window for trading in the Securities of the Company is closed from 31.10.2020 till 48 hours from the conclusion of the Scheduled Board Meeting i.e. 13th November, 2020 (both days inclusive).

For **Integrated Technologies Limited**
Sd/-
Sneh Chauhan
(Company Secretary & Compliance Officer)
Place: New Delhi
Date : 03.11.2020

PNC INFRA TECH LIMITED
Registered Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi-110017
CIN: L45201DL1999PLC195937, Email: complianceofficer@pncinfra.com, Website: www.pncinfra.com

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended (30.09.2020) un-audited	Quarter Ended (30.09.2019) un-audited	Half Year Ended (30.09.2020) un-audited	Quarter Ended (30.09.2020) un-audited	Quarter Ended (30.09.2019) un-audited	Half Year Ended (30.09.2020) un-audited
1	Total Income from Operations	1,05,345.55	1,18,021.83	1,95,871.55	1,24,846.48	1,34,094.61	2,34,127.59
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	10,787.51	24,629.72	19,446.76	12,401.48	24,817.84	24,990.27
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,787.51	24,629.72	19,446.76	12,401.48	24,817.84	24,990.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,926.90	20,693.75	12,938.84	7,865.62	21,408.29	17,040.28
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,977.53	20,670.05	13,040.09	7,930.39	21,384.49	17,169.49
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	2,62,568.93	-	-	2,67,497.18
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:			5.04	3.07	8.35	6.64

Notes:
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on Stock Exchanges website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and Company's website (www.pncinfra.com).
2) The above standalone/consolidated results, reviewed by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on November 02, 2020.

For **PNC InfraTech Ltd.**
Sd/-
Yogesh Kumar Jain
Managing Director
(DIN : 00086811)
Place: Agra
Date: November 02, 2020

ROADWAYS INDIA LIMITED
Regd. Off: 11/55, First Floor, Pusa Road, New Delhi-110005
Tel No : 011-47192065, Fax: 011-25615466
Email: info@roadwaysindia.com
CIN: L63800DL1987PLC0319212
Website : www.roadwaysindia.com
NOTICE
Notice is hereby given that the next Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to take place on Friday, November 13, 2020 at 3:30 P.M. to inter alia consider and approve the Un-audited Financial Results for the 2nd Quarter/ Half Year ended September 30, 2020.

This information is also available on the Company's website: www.roadwaysindia.com and on Stock Exchange's website: www.cse-india.com and www.mseil.in

By Order of Board of Directors
For **Roadways India Limited**
Sd/-
Date: November 03, 2020 Himanshu Gustin
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

FORTUNE INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
CIN: L51503DL1986PLC024329
Regd. Office : 25, Bazar Lane, Bengali Market, New Delhi-110001
Tel. No.: 011-43585000, Fax: 011-43585015
E-mail: fr.info@gmail.com, Website: www.firt.co.in
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulation, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 11th November, 2020 at 04.30 PM inter alia to consider and approve the standalone unaudited financial results of the Company for the Quarter/ Half year ended 30th September, 2020. The information is also hosted on the Company's at www.firt.co.in and may also be accessed on the websites of the stock exchanges at www.mseil.in.

For **Fortune Industrial Resources Limited**
Sd/-
Bharti
Company Secretary
ACS No. 34492
Place : Delhi
Date : 03.11.2020

ANANT RAJ LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS ANANT RAJ INDUSTRIES LIMITED)
CIN: L45400HR1985PLC021622
Regd. Office : Plot No.: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana -122051, Telefax: 0124-4265817
Head Office : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001, Tele: 011-43034400, 011-23324127
E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

